



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 1977/ज्येष्ठ 10, 1899

No. 226]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 1977/JYAISTHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st May 1977

S.O. 376(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1 This Order may be called the Imports (Control) Second Amendment Order, 1977.

2 In the Imports (Control) Order, 1955,—

(a) Sub-clause 11(2)(a)(i) shall be amended to read as under —

“(i) by hospitals or medical institutions for their own use, provided the c.i.f. value of such goods imported at any one time shall not exceed twenty five thousand rupees”

(b) Sub-clause 11(2)(b)(i) shall be amended to read as under:—

“(i) by hospitals or medical institutions for their own use upto a c.i.f. value of rupees one lakh in a financial year.”

[No 12/77]

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मई, 1977

का० आ० 376(अ) —आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18), के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे सशोधन करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् —

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) द्वितीय सशोधन आदेश, 1977 की संज्ञा दी जाए ।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में —

(क) उप-धारा 11(2)(ए)(1) को सशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाए —

“(1) अपने निजी उपयोग के लिए अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं द्वारा, बशर्ते कि एक ही समय में आयात के लिए साल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 25,000 रु० से अधिक नहीं होगा ।”

(ख) उप-धारा 11(2)(बी)(1) को सशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

“(1) एक वित्तीय वर्ष में अपने निजी उपयोग के लिए अस्पतालों या चिकित्सा संस्थाओं द्वारा वस्तुओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य एक लाख रुपये तक होना चाहिए ।”

[स० 12/77]

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977